



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 592 राँची, मंगलवार

12 जून, 2018 (ई०)

### राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

30 मई 2018

संख्या-03नि0प0-26/2016 रा0नि0आ0 994.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदयधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से अगले तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	धनबाद	XIV धनबाद-(1)	अजय कुमार महतो, पिता-श्री बोधराम महतो, ग्राम-जीतपुर, पो0-गोमो, प्रखण्ड-तोपचाँची, थाना-हरिहरपुर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XIV धनबाद-(1)	जय कुमार सिंह, ग्राम-चौरापट्टी, पो0-हरिहरपुर, प्रखण्ड-तोपचाँची, थाना-हरिहरपुर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XIV धनबाद-(1)	देवेन्द्र सिंह, ग्राम-पुराना बाजार, पो0-गोमो, प्रखण्ड-तोपचाँची, थाना-तोपचाँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XIV धनबाद-(1)	संजय कुमार मराण्डी, ग्राम-लक्ष्मीपुर, पो0-गोमो, प्रखण्ड-तोपचाँची, थाना-हरिहरपुर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XIV धनबाद-(2)	रुही प्रवीण, ग्राम-गुनघुसा, प्रखण्ड-तोपचाँची, थाना-तोपचाँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XIV धनबाद-(3)	साजदा खातुन, ग्राम-लोकबाद, प्रखण्ड-तोपचाँची	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		XIV धनबाद-(6)	गिरिलाल किस्कू, ग्राम-मेठिबेड़ा, पो0-महाराजगंज, प्रखण्ड-पूर्वी टुण्डी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		XIV धनबाद-(9)	ममता बाउरी, ग्राम-कुँवरडीह, पो0-निरसा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

9	XIV इनबाद-(9)	मीना देवी, मुगमा बस्ती,(वेलचढ़ी), निरसा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10	XIV धनबाद-(11)	बंदना कुमारी, ग्राम-मास्टर कलोनी, प्रखण्ड-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	XIV धनबाद-(11)	रुबीना खातून, ग्राम-फकीरडीह, गोविन्दपुर, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	XIV धनबाद-(13)	अभिनन्दन महतो, ग्राम-जीतपुर, प्रखण्ड-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	XIV धनबाद-(13)	इमतयाज अहमद, ग्राम-जियलगढ़ा, प्रखण्ड-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	XIV धनबाद-(13)	गौतम कुमार मंडल, ग्राम-दामकाड़ाबरवा, प्रखण्ड-गोविन्दपुर, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	XIV धनबाद-(14)	सरोज देवी, ग्राम-चुटियारो, पो0-खरनी, प्रखण्ड-गोविन्दपुर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	XIV धनबाद-(15)	आशा देवी, मु0-निमकीटाँड़, पो0-दलुडीह, थाना-राजगंज, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	XIV धनबाद-(16)	अंजु देवी, मु0-छोटा नगरी, पो0-सिजुआ, थाना-तेतुलमारी, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	XIV धनबाद-(16)	आरजु खातून, मुहल्ला-मोहलीडीह, पो0-भूली, थाना-तेतुलमारी, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	XIV धनबाद-(16)	माना देवी, मु0-छोटानगरी, पो0-चन्दौर, (सिजुआ) थाना-तेतुलमारी, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

## झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 12 जून, 2018

20	XIV धनबाद-(17)	इन्दु पासवान, मु0-माटीगाढ़ा, IV रजक टोला, पो0-नदखुरकी, थाना-बाघमारा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	XIV धनबाद-(18)	पुर्णिमा देवी, मु0-डुमरा सायरबांध, पो0-नवागढ़, थाना-बाघमारा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	XIV धनबाद-(18)	वाणी देवी, मु0-डुमरा, पो0-नवागढ़, थाना-बाघमारा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	XIV धनबाद-(20)	दीपक कुमार चटर्जी, मु0-रामपुर, पो0-मालकेरा, थाना-कतरास, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
24	XIV धनबाद-(20)	दुलाल चन्द्र राय, मु0-लोहपिटी, पो0-रामनगरगढ़, थाना-महुदा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
25	XIV धनबाद-(20)	परिमल कुमार माजि, मु0-देवग्राम, पो0-मालकेरा, थाना-कतरास, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
26	XIV धनबाद-(20)	महानन्द तिवारी, मु0-खरखरी बस्ती, पाण्डेय टोला, पो0-खरखरी, थाना-मधुबन, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
27	XIV धनबाद-(20)	सनातन सोरेन, मु0-निचे देवघरा, पो0-महुदा, थाना-मधुबन, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28	XIV धनबाद-(20)	सुब्रत कुमार सुपकार, मु0-सवारडीह, पो0-मालकेरा, थाना-कतरास, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
29	XIV धनबाद-(21)	कमलेश पाठक, मु0-मुचीरायडीह, पो0+थाना-महुदा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

30	XIV धनबाद-(21)	जटाधारी महतो, मु0-मुरलीडीह, पो0+थाना-महुदा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
31	XIV धनबाद-(21)	मंजु देवी, मु0-तरगा, पो0+थाना-महुदा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
32	XIV धनबाद-(21)	रमीज राजा, मु0-बड़ी मुहल्ला, पो0+थाना-महुदा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
33	XIV धनबाद-(21)	सुमन तिवारी, मु0-हाथुडीह कॉलोनी, पो0+थाना-महुदा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
34	XIV धनबाद-(21)	सुरेश शर्मा, मु0-सब्जीपट्टी, पो0+थाना-महुदा, धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
35	XIV धनबाद-(22)	पुष्पा देवी, मु0-गरभुडीह, पो0-लालपुर, थाना-पुटकी, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
36	XIV धनबाद-(22)	सबनम बेगम, मु0-मुनिडीह, पो0-मुनिडीह, थाना-पुटकी, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
37	XIV धनबाद-(23)	पुतुल मंझियान, ग्राम-ब्राह्मणडीहा, प्रखण्ड-बलियापुर, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
38	XIV धनबाद-(23)	रीना महतो, ग्राम-पलानी, प्रखण्ड-बलियापुर, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
39	XIV धनबाद-(23)	हिमानी देवी, ग्राम-पलानी, पोस्ट-पलानी, प्रखण्ड-बलियापुर, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
40	XIV धनबाद-(25)	प्रतिमा देवी, ग्राम-बाघमारा, प्रखण्ड-बलियापुर, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
41	XIV धनबाद-(26)	मनजुड़न योगी, ग्राम-सालुकचापड़ा, प्रखण्ड-केलियासोल, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

**झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 12 जून, 2018**

42	XIV धनबाद-(27)	देवदास महतो, ग्राम-बेनागड़िया, प्रखण्ड-केलियासोल, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
43	XIV धनबाद-(27)	नारायण चन्द्र गोराई, ग्राम-पाथरकुँआ, प्रखण्ड-केलियासोल, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
44	XIV धनबाद-(27)	समीर महतो, ग्राम-बान्दरचुआँ, प्रखण्ड-केलियासोल, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
45	XIV धनबाद-(28)	माधुरी बाउरी, ग्राम-एगारकुण्ड, प्रखण्ड-एगारकुण्ड	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
46	XIV धनबाद-(28)	सुषमा बाउरी, ग्राम-नकरा कनाली, प्रखण्ड-एगारकुण्ड	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
47	XIV धनबाद-(29)	कल्पना महतो, ग्राम-कालीपहाड़ी, प्रखण्ड-एगारकुण्ड, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
48	XIV धनबाद-(29)	खेमा देवी, ग्राम-कमलिया, प्रखण्ड-एगारकुण्ड, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
49	XIV धनबाद-(28)	रेवती देवी, ग्राम-कापासारा, तुरी मुहल्ला, पोस्ट-मुगमा, प्रखण्ड-एगारकुण्ड, जिला-धनबाद	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह०/-(अस्पष्ट),**

उप निर्वाचन आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
झारखण्ड, राँची।

-----